

(i) Printed Pages : 8] Roll No. ....

(ii) Questions : 9+9+9] Sub. Code : 2 6 8 2

Exam. Code : 0 3 1 0

## Master of Arts 4th Semester Examination

**1047**

### ECONOMICS

**Opt. (IV)a : Economics of Money and Banking**  
(In All Mediums)

**Paper : MAECO-403 & 404**

**Time : 3 Hours]**

**[Max. Marks : 80**

#### English Medium

**Note :-** (i) First question is compulsory. Attempt any ten parts of this question. Answer each part in 25-30 words. Each part carries 2 marks.

(ii) Attempt one question from each of the four Units. Each question carries 15 marks.

1. (i) Define Representative Money.
- (ii) Briefly explain function of money as a store of value.
- (iii) Define Near Money Assets.

- (iv) What do you understand by 'Broad Money' ?
- (v) Define Monetary Policy.
- (vi) What do you understand by Transmission Mechanism in the context of monetary policy ?
- (vii) Define market segmentation in the context of interest rates.
- (viii) Give the main points of Liquidity Premium Theory.
- (ix) Briefly give the function of Central Bank as lender of last resort.
- (x) What is Cash Reserve Ratio (CRR) ?
- (xi) Define a Commercial Bank.
- (xii) What is meant by autonomy of RBI ?
- (xiii) Define International Liquidity.
- (xiv) What do you understand by the term global financial crisis ?
- (xv) Give two main features of Maastricht Treaty.
- 2x10=20  
15 each
- Unit-I
2. Critically examine the classical quantity theory of Money.

3. Discuss in detail the money multiplier process.

**Unit-II**

15 each

4. Discuss the goals of monetary policy.

5. Write a detailed note on the structure of interest rates in India.

**Unit-III**

15 each

6. Examine the main functions of Central Banks.

7. Discuss banking sector reforms in India.

**Unit-IV**

15 each

8. Define Non-Bank Financial Institutions. Discuss their types.

9. Why was IMF (International Monetary Fund) set up ? Discuss role of IMF as provider of international liquidity.

## हिन्दी माध्यम

- नोट :- (i) पहला प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न के कोई दस भाग हल कीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर 25–30 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग के 2 अंक हैं।
- (ii) चारों इकाइयों में से एक-एक प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक हैं।
1. (i) प्रतिनिधि मुद्रा (representative money) की परिभाषा दीजिए।
- (ii) मुद्रा, मूल्य के भंडार (Store of value) के रूप में किस प्रकार कार्य करती है ?
- (iii) नजदीक-मुद्रा सम्पत्ति (near money assets) की परिभाषा दीजिए।
- (iv) विस्तृत मुद्रा (broad money) से क्या अभिप्राय है ?
- (v) मौद्रिक नीति (monetary policy) की परिभाषा दीजिए।
- (vi) मौद्रिक नीति के संदर्भ में संक्रमण प्रक्रिया (transmission mechanism) से क्या अभिप्राय है ?
- (vii) ब्याज दरों के संदर्भ में मण्डी-खण्डीकरण (market segmentation) की परिभाषा दीजिए।
- (viii) तरलता प्रतिफल (liquidity premium) सिद्धान्त के मुख्य बिन्दु (points) दीजिए।

- (ix) केन्द्रीय बैंक अंतिम चारे के ऋणदाता (lender of the last resort) के रूप में किस प्रकार कार्य करता है ?
- (x) नकद रिजर्व अनुपात (Cash Reserve Ratio) क्या है ?
- (xi) वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank) की परिभाषा दीजिए।
- (xii) भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्ता (autonomy) से क्या अभिप्राय है ?
- (xiii) अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (International liquidity) की परिभाषा दीजिए।
- (xiv) विश्व-व्यापक वित्तीय संकट (Global Financial crisis) से क्या अभिप्राय है ?
- (xv) मैस्ट्रिक्ट संधि (Maastricht Treaty) की दो मुख्य विशेषताएँ दीजिए। 2×10=20

**इकाई-I** प्रत्येक 15

- मुद्रा के पारम्परिक मात्रा सिद्धान्त (Classical Quantity Theory of Money) का आलोचनात्मक विवरण दीजिए।
- मुद्रागुणन की प्रक्रिया (money multiplier process) का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

**इकाई-II** प्रत्येक 15

- मौद्रिक नीति के उद्देश्यों (goals) की चर्चा कीजिए।
- भारत में व्याज दरों की संरचना (Structure of interest rates) पर एक विस्तृत नोट लिखिए।

### इकाई—III

6. केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यों के विषय में बताइए।
7. भारत में बैंकिंग सैक्टर में सुधारों की चर्चा कीजिए।

### इकाई—IV

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (Non-banking Financial Institutions) की परिभाषा दीजिए तथा इनकी किसी की जिए।
9. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड (IMF) की स्थापना क्यों की गई अंतर्राष्ट्रीय तरलता (International liquidity) के दाता में IMF की भूमिका की चर्चा कीजिए।

### इकाई-III

प्रत्येक 15

6. केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यों के विषय में बताइए।
7. भारत में बैंकिंग सैक्टर में सुधारों की चर्चा कीजिए।

### इकाई-IV

प्रत्येक 15

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (Non-banking Financial Institutions) की परिभाषा दीजिए तथा इनकी किस्मों का बयान कीजिए।
9. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड (IMF) की स्थापना क्यों की गई थी ? अंतर्राष्ट्रीय तरलता (International liquidity) के दाता के रूप में IMF की भूमिका की चर्चा कीजिए।

### (Punjabi Medium)

- ਨੋਟ :- (1) ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਭਾਗ ਹਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਭਾਗ ਦਾ ਉੱਤਰ 25-30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ।
- (2) ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਅੰਕ ਹਨ।

1. (i) ਪ੍ਰਤੀਨੱਧ ਮੁਦਰਾ (Representative Money) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।
- (ii) ਮੁਦਰਾ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੇਡਾਰ (Store of Value) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
- (iii) ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ (Near Money Assets) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।
- (iv) ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਦਰਾ (Broad Money) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
- (v) ਮੁਦਰਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।
- (vi) ਮੁਦਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ (Context) ਵਿਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਪ੍ਰਕਿਆ (Transmission Mechanism) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
- (vii) ਵਿਆਜ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਖੰਡੀਕਰਣ (Market Segmentation) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।
- (viii) ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਿਧਾਂਤ (Liquidity Premium Theory) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Points) ਦੱਸੋ।
- (ix) ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਤਮ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਾ (Lender of the Last Resort) ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
- (x) ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (Cash Reserve Ratio) ਕੀ ਹੈ ?
- (xi) ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (Commercial Bank) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ।
- (xii) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (Autonomy) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

(xiii) ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਲਤਾ (International Liquidity) ਨੂੰ  
ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।

(xiv) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (Global Financial Crisis)  
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

(xv) ਮੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਧੀ (Maastricht Treaty) ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ  
ਦੱਸੋ।  $2 \times 10 = 20$

#### ਯੂਨਿਟ-I

15 each

2. ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਮਾਤਰਾ ਸਿਧਾਂਤ (Classical Quantity Theory  
of Money) ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ।

3. ਮੁਦਰਾ ਗੁਣਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Money Multiplier Process) ਦੀ  
ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

#### ਯੂਨਿਟ-II

15 each

4. ਮੁਦਰਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ (goals) ਹਨ ?

5. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ (structure of interest  
rates) ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟ ਲਿਖੋ।

#### ਯੂਨਿਟ-III

15 each

6. ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ।

7. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

#### ਯੂਨਿਟ-IV

15 each

8. ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Non Banking Financial Institutions)  
ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

9. ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ  
ਸੀ ? ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਲਤਾ (international liquidity) ਦੇ  
ਦਾਤਾ (provider) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ IMF ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।